



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16—फरवरी 22, 2013 (माघ 27, 1934)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16 —FEBRUARY 22, 2013 (MAGHA 27, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2013

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2013

सं. आरएस 3/1/1/2012/5—कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/नयाचार/समिति/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 22 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्रीमती मनजीत कौर
2. श्री दीपक कालरा
3. श्रीमती सुभा चन्द्रशेखर
4. श्रीमती हर्षिता शंकर

डी.बी. सिंह, अपर सचिव

सं. आरएस 6/4/2012/8—कार्मिक--आचार समिति के पूर्व अध्यक्ष (डॉ. कर्ण सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव श्री मोहन सिंह सेन की सेवाएं, 2 दिसम्बर से 26 दिसम्बर, 2012 तक की परिसमापन अवधि प्रदान करते हुए 26 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस 6/4/2012/9—कार्मिक--श्री मोहन सिंह सेन को 27 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी समिति के अध्यक्ष (डॉ. कर्ण सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री मोहन सिंह सेन की नियुक्ति राज्य सभा के सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. आरएस./20/1/2013/10-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री उमेश कुमार सरीन, सहायक निदेशक 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

## अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. 2/1(1)2013-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक 01.07.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं. नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.	
1. डॉ. नोवालीन जाकोब	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
2. शिवेन्द्र सिंह सोलंकी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
3. ए. साई वेंकट लक्ष्मी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
4. जे. श्रीनिवासुलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ
5. डी. सीता	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
6. निधि चौबे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
7. हरि ओम प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
8. एस. शरवणन	तकनीकी अधिकारी-सी

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

## योजना आयोग

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. ए-19012/63/2013-यूआईडीएआई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 04.01.2013 के पत्र सं. ए-12013/21/(अनुभाग अधिकारी/मुख्यालय)/11-यूआईडीएआई और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 16.01.2013 के आदेश सं. ए-35014/1/2013-स्था.II के अनुसरण में श्री एस. गोपाला कृष्णा ने दिनांक 21.01.2013 पूर्वाह्न से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड + 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

राजेश कुमार, उप-निदेशक (स्थापना)

सं. ए-19012/64/2013-यूआईडीएआई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 04.01.2013 के पत्र सं. ए-12013/21/(अनुभाग अधिकारी/मुख्यालय)/11-यूआईडीएआई और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21.01.2013 के कार्यालय आदेश सं. पीएफए (460/2007-एडी-I के अनुसरण में श्री एस. रागोथामन ने दिनांक 21.01.2013 (पूर्वाह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड + 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

राजेश कुमार, उप-निदेशक (स्थापना)

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. ए-12034/3/2012-प्रशा-IV(वि.का.) भाग-II--राष्ट्रपति, श्रीमती निर्मल कोहली को दिनांक 12.11.2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित माननीय विधि और न्याय मंत्री (डॉ. अश्विनी कुमार) के वैयक्तिक अनुभाग में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती निर्मल कोहली की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार के प्रसादपर्यंत तथा उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

आशा सोटा, अवर सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. आई-14011/13/2012-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 15.01.2013 को चयन समिति की दिनांक 02.11.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2011 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड संवर्ग में 1 मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है :-

## चयन सूची-2011

श्री योगेन्द्र सिंह रावत

05.11.1967

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/13/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के

उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :--

## चयन सूची-2011

श्री योगेन्द्र सिंह रावत 05.11.1967

2. यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. ए-32013/08/2011-प्रशा. 1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर विदेश मंत्रालय, जयपुर में डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत को वर्ष 2009 की चयन सूची में उनके नाम को शामिल करने के उपरान्त 01 जुलाई, 2009 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :--

सी.एस.एल. सं.	नाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का. ज्ञा. सं. 5/11/2011-सी.एस.1 (यू) के अनुसार सी.एस.एस. के ग्रेड-I में दी गई वरिष्ठता (अनुलग्नक-I)
6750	एस.आर. मीणा	267

2. वर्ष 2009 की चयन सूची में शामिल अधिकारी की अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति "पी.एस. भंडारी तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य" विषयक ओ.ए. सं. 611/2012, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.), पी.बी., नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश तथा अन्य किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

सुरजीत घोष, अवर सचिव

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2012

सं. 39/पीबी-I/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II एवं III के अधिकारी, श्री सुभाष कुमार (जन्मतिथि 05.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I)

दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 40/पीबी-I/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II एवं III के अधिकारी, श्री ए.के. मल्होत्रा (जन्मतिथि 01.11.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I)

दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. 41/पीबी-I/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II एवं III के अधिकारी, श्री भीम सेन पाहवा (जन्मतिथि 07.10.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2013

सं. क्यू/02/पीए-II/2013--संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा कराई गई सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित 37 (सैंतीस) आवेदकों को उनके सामने दर्शायी गई तारीख से विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) परिवीक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
1.	सुश्री गीताजंली ब्रांडोन	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री प्रियंका सोहोनी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
3.	मोहम्मद शारीक बद्र	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री बैस्टियन नॉगिनियोल चाको	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री किरन खत्री	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री विक्रम वर्धन	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
7.	सुश्री स्नेहा दूबे	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
8.	श्री जी. अपर्णा	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
9.	श्री जयसुंदर डी.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
10.	सुश्री एस. राखी मयूरी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
11.	श्री अविनाश कुमार सिंह	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
12.	सुश्री प्रियदर्शनी आर.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
13.	श्री स्टीफेनमानी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
14.	सुश्री शालिया शाह	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)

1	2	3
15.	श्री शिशिर कोठारी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
16.	श्री क्षितिज त्यागी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
17.	श्री नवीन कुमार आर.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
18.	श्री नीरज कुमार	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
19.	सुश्री आशा एंटनी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
20.	डॉ. असीम वोहरा	24 दिसम्बर, 2012 (अपराह्न)
21.	श्री अखिलेश सिंह	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
22.	श्री मिथुन टी. आर.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
23.	सुश्री शाश्वती आर्या	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
24.	श्री युम्बेबम साबिर	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
25.	श्री रिछपाल सिंह	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
26.	सुश्री रोशीस सुकन्या जे.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
27.	श्री कृष्णा के.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
28.	श्री कुमार प्रवीन	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
29.	श्री त्रिलोकी नाथ कौशल	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
30.	श्री वैभव ए. टंडाले	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
31.	श्री मेसारिया विपुलकुमार हीरालाल	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
32.	सुश्री सेतेन नार्दन कारग्याल	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
33.	सुश्री सुमन कंसोतिया	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
34.	सुश्री निधि चौधरी	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
35.	सुश्री ईरीना मासूम	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
36.	सुश्री ऐन रामावी हाओकीप	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)
37.	श्री कन्नन सी.	3 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न)

2. ऊपर दिए गए 37 (सैंतीस) अधिकारियों ने अपनी नियुक्ति के आधार पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सुजा के. मेनन, अवर सचिव (एफ.एस.पी.-II)

दिनांक 15 जनवरी 2013

सं. 4/पीए-II/2013--विदेश मंत्रालय बड़े खेद के साथ यह घोषणा करता है कि श्री सेमुअल कुजुर, भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I के अधिकारी की दिनांक 09.01.2013 को मृत्यु हो गई है। अतः उनका नाम इस मंत्रालय के नामावली से हटा दिया गया है।

सुजा के. मेनन, अवर सचिव

### प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. ए-19011/5/2011-पीए--सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप श्री एम. वी. एन. एस. श्यामलाल, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रधान निजी सचिव 31 जनवरी, 2013 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

क्षितिज मोहन, उप सचिव

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. 02/2013 (फा. सं. ए-32011/02/2006-प्रशा. VI--श्री एस. के. जोशी, आई आर एस (आई टी) (93562ए), संयुक्त आयकर आयुक्त (सेवा निवृत्त) को एतद्वारा दिनांक 25.02.2006 से अर्थात् वह तिथि जिससे उनकी तुरन्त कनिष्ठ सुश्री ऋचा खोड़ा (93080) को एनएफएसजी प्रदान किया गया, से पीबी-4 रु. 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन के चयन ग्रेड (गैर कार्यात्मक) में रखा जाता है।

आनंद उपाध्याय, अवर सचिव

### आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 11016/4/2012/आईईएस--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के 2009 बैच के निम्नलिखित ग्रेड-IV अधिकारियों (कनिष्ठ वेतनमान) को परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने तथा तत्पश्चात् इसकी पुष्टि किए जाने पर 03 जनवरी, 2012 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम
1.	श्री सोंगेरंग खुबोई एमल
2.	श्री करनजीत सिंह नगंगबम
3.	सुश्री मोनिका सिंह

ए. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 22011/1/2013-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, सुश्री अनुराधा गुरू (आईईएस: 99) को 14.01.2013 (अपराह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सीता मित्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-19011/5/2009-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.01.2013 के कार्यालय आदेश सं. 18/1/2013-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में, श्री निलय मिताश, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 91) को 24 जनवरी, 2013 के अपराह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 31.05.2014 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 01 अक्टूबर 2012

सं. ए-19011/311/2011-स्थापना--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री डी. के. मित्तल, आईएस (उत्तर प्रदेश : 1977), सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-19011/333/2013-स्थापना--राष्ट्रपति, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी, श्री तीर्थ राम (सीएसएल सं. 7180) को 31 दिसम्बर, 2012 के अपराह्न से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (iii) यदि अधिकारी ने पहले अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकनों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथा निर्धारित अनिवार्य लेवल 'घ' प्रशिक्षण लेना होगा।
- (iv) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य से अथवा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा।
- (v) श्री तीर्थ राम की यह तदर्थ प्रोन्नति कैट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 तथा ओए सं. 1083/2007 के

अलावा संबंधित किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अन्य आदेश में अंतिम परिणाम के अधधीन होगी।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. ए-12026/4/2008-एडमिन. I (भाग-II)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति को पूर्णतः तदर्थ आधार पर 30 जून, 2013 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री शरद एन. हुलाले
2. श्री सुनील कुमार
3. श्री के. जे. भट्ट
4. श्री डाल चन्द कैम
5. श्री एस. एन. राणा
6. श्रीमती पुष्पा गौतम
7. श्री राकेश कुमार सिंह
8. श्रीमती सुदेश अरोड़ा
9. श्री श्याम सरूप
10. श्रीमती राधा सुधाकरण

2. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सभी अन्य शर्तें वही होंगी जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 6/17/2012-सीएस-I (एस) में निर्धारित की गई हैं।

जितेन्द्र आर. गायकवाड़, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. ए-12026/1/2012-एडी. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सीएस-I (यू) के तहत परिचालित केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की ग्रेड-I (अवर सचिव) की चयन सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए चयन सूची वर्ष के 1 जुलाई से अथवा अगले आदेशों तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	सीएसएलसं.	सीएसएल वर्ष
1	2	3	4
1.	श्रीमती रेनु कक्कड़	6145	2009
2.	श्री एस. कृष्णमूर्ति	6196	2009

1	2	3	4
3.	श्री सुख लाल मीणा	6753	2009
4.	श्री अनिंद भट्टाचार्य	6576	2010
5.	श्री अनिल शर्मा	6669	2010

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में उपर्युक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता इस ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख पर विचार किए बिना चयन सूची में दी गई क्रम संख्या के अनुसार होगी। चयन सूची 2009 में शामिल अधिकारियों की अवर सचिव ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), पीबी, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के अनुसार श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ एवं अन्य के ओ.ए. सं. 611/2012 के अंतिम परिणाम और किसी भी संबंधित मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अध्वधीन होगी।

जितेन्द्र आर. गायकवाड़, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ए-12026/1/2011-एडी. I-राष्ट्रपति, सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (पीए) (तदर्थ निजी सचिव के रूप में कार्यरत) को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से चयन सूची वर्ष 2010 (विस्तारित) के लिए वरिष्ठता कोट्य में नियमित आधार पर 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सीएसएल नं.	नाम	तारीख से
		श्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	815	सुनील कुमार	01.01.2013 (पूर्वाह)
2.	1050	कविता संधु	04.01.2013 (अपराह)

जितेन्द्र आर. गायकवाड़, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जनवरी 2013

सं. 9/8/2012-प्रशासन--पेयजल तथा स्वच्छता (सेनिटेशन) मंत्रालय के दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के का.आ. सं. ए-15015/02/2012-प्रशासन/840 के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, श्री रागेश कान्त (सीएसएल सं. 7225) को विनिवेश विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के तौर पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह तैनाती इस विभाग में 31 दिसम्बर, 2012

के पूर्वाह से 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में प्रभावी है।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/9/2012-सीएस (यू) के अनुसरण में भारत सरकार के निर्णय एफआर-22 के साथ पठित, जैसाकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 14.03.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-I (7) ई-III (ए)/78 के द्वारा सूचित, श्री रागेश कान्त, जो आईएसटीएम में 29.10.2012 से 21.12.2012 तक स्तर 'घ' का प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया माना गया है, जो 30 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह से यानि वह तारीख जिसको उनके कनिष्ठ ने वाणिज्य विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है, से प्रभावी है।

आशीष कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. 9/1/2013-प्रशासन--व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 8 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12026/8/2010-सीएसएस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.7.2012 के का.ज्ञा. संख्या 4/2/2012-सी.एस. II (ए) और 23.11.2012 के साथ पठित। भारत के राष्ट्रपति सीएसएसएस की श्रीमती किरन बिर्दी को निजी सचिव के तौर पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं जो वरिष्ठता कोट्य हेतु जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2010 (भाग) और (विस्तारित) विनिवेश विभाग में रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. (पीबी-2) में 1 जनवरी, 2013 के पूर्वाह से प्रभावित है। परिणामस्वरूप उस तारीख से उन्हें नियमित आधार पर सीएसएसएस के निजी सचिव के तौर पर इस विभाग की नामावली में ले लिया गया है।

आशीष कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2013

सं. 9/2/2013-प्रशासन--श्री रवि माथुर, भा.प्र.से. (आरजे : 79) ने विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय) में भारत सरकार के सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह 14 जनवरी, 2013 के पूर्वाह से प्रभावी है।

आशीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2013

सं. ए-32015/7/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव (तदर्थ) श्री नफे सिंह को

14.01.2013 (पूर्वाह्न) से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वरीयता कोट में वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव के रूप में पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. ए-32015/7/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव (तदर्थ) श्रीमती दविन्दर कौर को 15.01.2013 (पूर्वाह्न) से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वरीयता कोट में वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव के रूप में पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 2/2013(ए-19011/2/2012-स्था.)--वस्त्र मंत्रालय में सचिव सुश्री किरण धीगरा, आईएस (यू.टी : 75) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. ए-12011/10/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1993) को दिनांक 29.10.2012 से 'पार्श्व शिफ्ट' आधार पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री संजीव कुमार की यह नियुक्ति, निजी सचिव के रूप में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 03.09.2013 तक या मंत्री जी के साथ सह पर्यवसान आधार पर या उनके द्वारा मंत्री जी के साथ निजी सचिव के रूप में कार्य करना बन्द करने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी पहले घटित हो, होगी।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. ए-19011/01/2010-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.01.2013 के पत्र सं. 6/3/2013-ईओ (एसएम-1) के अनुसार में राष्ट्रपति, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अवर सचिव श्री सुधीर भार्गव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आरजे : 79) को उनके द्वारा धारित पद का अस्थायी रूप से उन्नयन करके स्व-स्थाने

आधार पर विशेष सचिव के रूप में इस मंत्रालय में 11 जनवरी, 2013 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. 23011/20/2012-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय डीओपीटी के दिनांक 26.11.2012 के आदेश सं. 5/11/2011-सीएस-I(यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री पी. बैरागी साहू, अवर सचिव (तदर्थ) को 26.11.2012 (पूर्वाह्न) से उर्वरक विभाग में चयन सूची 2010 के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. 23011/20/2012-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय डीओपीटी के दिनांक 26.11.2012 के आदेश सं. 5/11/2011-सीएस-I(यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री कुलवंत सिंह राणा, अवर सचिव (तदर्थ) को 26.11.2012 (पूर्वाह्न) से उर्वरक विभाग में चयन सूची 2009 के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं. 23011/20/2012-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय डीओपीटी के दिनांक 26.11.2012 के आदेश सं. 5/11/2011-सीएस-I(यू) में निहित शर्तों के अधीन श्री सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव (तदर्थ) को 26.11.2012 (पूर्वाह्न) से उर्वरक विभाग में चयन सूची 2009 के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 5(7)/2012-स्थापना--राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 6/3/2013-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री ई. के. भारत भूषण को उनके द्वारा धारित पद को अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए दिनांक 11 जनवरी, 2013 से यथा स्थान आधार पर विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. 5(2)/2008-स्थापना--राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 17/1/2013-ईओ

(एसएम-1) के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत डॉ. दलीप सिंह को उनके द्वारा धारित पद को अस्थायी रूप से प्रोन्नत करते हुए दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 से यथास्थान आधार पर अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

#### कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2013

सं. 12/4/2010-एसओ--इस मंत्रालय की दिनांक 05 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 12/4/2010-एसओ के क्रम में, राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत सुश्री अंजली आनंद श्रीवास्तव, आईए एंड एस (82) के कार्यकाल को दिनांक 29.12.2012 से आगे तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

एस. अशरफ, उप सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 12/5/2007-एसओ--इस मंत्रालय की दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 12/5/2007-एसओ के अनुक्रमण में, राष्ट्रपति श्री पी. सोमा शेखर रेड्डी, आईआरएस (आईटी : 91) का कार्यकाल कोयला मंत्रालय में निदेशक के रूप में 11.01.2013 से आगे तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

एस. अशरफ, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012.

सं. ए-15012/1/2005-प्रशा./स्था.--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.12.2012 के आदेश सं. 5/9/2012/सी.एस.-I(यू), के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री संजीव भट्टाचार्या (सीएसएल सं. 7807) को पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर कोयला मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में 18.12.2012 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऊपर उल्लिखित दिनांक 06.12.2012 के डीओपी एंड टी के आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ए-12011/9/2012-स्था.--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग के नियमित उप निदेशक (सहकारिता) श्री एम. एस. अशोकन को 14.01.2013 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर वेतन

बैंड पीबी-3 (रु. 15,600--39,100/-) और रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन में निदेशक (सहकारिता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एन. सिंह, निदेशक (स्थापना)

दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. ए-12011/11/2005-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ए.सी.सी.) के दिनांक 17 जुलाई, 2013 के आदेश संख्या 6/3/2013-ई. ओ.(एस.एम.-I) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव के पद को अस्थायी रूप से सचिव के रैंक और वेतन अर्थात् 80,000 रुपए (नियत) में अपग्रेड करके श्री अफजल अमानुल्लाह, आई.ए.एस. (बिहार: 79) को दिनांक 11.01.2013 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्व-स्थाने आधार पर विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एन. सिंह, निदेशक (स्थापना)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2012-स्था.1--राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती सुमन माही को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा कैडर में चयन सूची वर्ष-2011 में वेतन बैंड-3 अर्थात् 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 16.11.2012 (पूर्वाह्न) से प्रधान निजी सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. ए-12022/1/2009-स्था.1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस-1(डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I (अवर सचिव) से चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नत होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा श्री मेहर सिंह आजाद को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 की पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक उप सचिव के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 जनवरी 2013

सं. एसएम/01/18/2011--राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक सर्वेक्षक के पदासीन निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखी तिथियों से अगले आदेशों तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग



में 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन + वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) में निदेशक (रक्षा वर्ग) के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	तैनाती की तारीख
1.	लेफ्टिनेंट कर्नल एस. श्रीधर राव	27.12.2012
2.	लेफ्टिनेंट कर्नल अरूण कुमार डी.	26.12.2012
3.	लेफ्टिनेंट कर्नल बी. सरीन चंदर	26.12.2012
4.	लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह	26.12.2012

लता गोपाकुमार, अवर सचिव

जैवप्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. ए-12011/04/2013-स्था.--राष्ट्रपति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रो. के. विजयराघवन को 28 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में नियुक्त करते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-38011/13/2012-स्था.--जैवप्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी' पद से डॉ. विनोद प्रकाश गुप्ता अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली-110023, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. जेड-16011/27/2006-आर टी आई (आयु.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1), 5(2) और 19(1) के अनुसरण में और तारीख 31.08.2012 के समसंख्यक पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, आयुष विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई विषयवस्तु के संबंध में एतद्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किए जाते हैं :-

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

क्र. सं.	नाम/पदनाम	दूरभाष एवं ई-मेल पता	मामले
1	2	3	4
1.	श्री आर. एस. सिन्हा, निदेशक	24651966 dir-ayush@nic.in	1. राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित सभी मामले अर्थात्: (i) एआईआईए, नई दिल्ली (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (iii) आरएवी, नई दिल्ली (iv) आईपीजीटीआरए, जामनगर

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-12025/219/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हेमन्त अग्रवाल को 15.04.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (पीबी-3) वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. हेमन्त अग्रवाल को सीजीएचएस, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. ए-12025/220/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनिल कुमार को 13.06.2008 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (पीबी-3) वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अनिल कुमार को सीजीएचएस, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

1	2	3	4
			(v) एनईआईएफएम, पासीघाट (vi) एनईआईएच, शिलांग (vii) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (viii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (ix) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (x) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, (xi) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान 2. शिक्षा, प्रशिक्षण और मौजूदा तथा नए एएसयू मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने सहित एएसयू में एचआरडी से संबंधित मामले 3. सतर्कता संबंधी मामले 4. आईएमपीसीएल 5. आईएमपीसीसी अधिनियम और सीसीआईएम से संबंधित सभी मामले
2.	डॉ. मनोज नेसरी संयुक्त सलाहकार (आयु.)	24651972 drnesari@gmail.com	1. भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) 2. आयुष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और सरल बनाने के लिए अनुसंधान परिषदों के भीतर और बाहर अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय और मॉनीटरिंग के लिए अनुसंधान डेस्क का तकनीकी स्कंध।

सहायक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

1.	श्रीमती जेस्मिन जेम्स, अवर सचिव	24651975 jasmine.james@nic.in	1. अनुसंधान परिषदों से संबंधित सभी मामले अर्थात् (i) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस), (ii) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) (iii) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) (iv) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) (v) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) 2. एएसयू एवं होम्योपैथी औषधों की गुणवत्ता व मानक, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा औषध गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम से संबंधित मामले। 3. शिक्षा, प्रशिक्षण और मौजूदा तथा नए एएसयू मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने सहित एएसयू में एचआरडी से संबंधित मामले 4. शिक्षा, प्रशिक्षण और मौजूदा तथा नए होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने सहित होम्योपैथी में एचआरडी से संबंधित मामले 5. एनएमपीबी 6. आईएमपीसीएल
----	------------------------------------	----------------------------------	--

1	2	3	4
			<p>7. आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष का मुख्यधारा में समावेशन स्कीम</p> <p>8. आयुष विषयक सतत चिकित्सा शिक्षा और ज्ञानार्जन कार्यक्रम स्कीम</p> <p>9. आईएमसीसी अधिनियम और सीसीआईएम से संबंधित सभी मामलें</p> <p>10. एचसीसी अधिनियम और सीसीएच से संबंधित सभी मामलें</p>
2.	श्री अंजन बिश्वास, अवर सचिव	24651975	<p>1. सतर्कता संबंधी मामले</p> <p>2. रोकड़ संबंधी मामले</p> <p>3. बजट संबंधी मामले</p> <p>4. कम नामांकन वाले राज्यों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का नामांकन</p> <p>5. आयुष संस्थाओं की विकास स्कीम</p> <p>6. आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) का संवर्धन स्कीम, टीकेडीएल, आईपीआर मुद्दे</p> <p>7. योजना और बजट</p> <p>8. आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) का संवर्धन स्कीम; आयुष संबंधी आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला के लिए सहायता</p> <p>9. पीएलआईएम, एचपीएल तथा भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम)</p> <p>10. सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पीएचआई) स्कीम</p> <p>11. आयुष समूह विकास स्कीम; स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं, प्रसूति विधाओं आदि की पुनरुत्थान स्कीम</p> <p>12. पाठ्य पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का अधिग्रहण, सूचीकरण, अंकीकरण और प्रकाशन स्कीम</p> <p>13. उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) का उन्नयन स्कीम</p> <p>14. रोकड़ संबंधी मामले</p> <p>15. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी संबंधी बहिर्वर्ती अनुसंधान (ईएमआर) परियोजना स्कीम</p> <p>16. टीकेडीएल परियोजना</p>

दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-38012/2/09-ई-1 (आयुष)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर डॉ. सदानंद साहु, उप सलाहकार (होम्योपैथी), आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 31.01.2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2013

सं. 38011/04/2012-स्था.-II--कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री राजकुमार शर्मा, सम्पर्क एवं प्रोटोकॉल अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत सरकार की सेवा से 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ए-15012/08/2012-प्रशा.-I--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, इस विभाग में श्री रविन्दर सिंह, सहायक आयुक्त 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

डी. बनर्जी, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जनवरी 2013

सं. ए-32013/4/2010-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.12.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) के द्वारा राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित अनुभाग अधिकारी श्रीमती बीना प्रिंजा (सीएसएल सं. 7791) को दिनांक 06.12.2012 पूर्वाह्न से दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) + 6,600/- रु. वेतन ग्रेड में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 31.05.2013 तक अथवा नियमित आधार पर पद भरने तक अथवा अगले आदेश जारी किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:-

- (i) इस तदर्थ प्रोन्नति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(iii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति, उस मंत्रालय/विभाग में अवर सचिव का पद-भार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी जो अधिकारी को आबंटित किया गया है।

(iv) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना उस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।

(v) जैसा कि सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदेश दिया गया है ऐसे अधिकारी, जिन्होंने आवश्यक स्तर 'घ' प्रशिक्षण नहीं लिया है, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

(vi) अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 मामले के अंतिम परिणाम और ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधित मामले में किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्वधीन होगी।

विमल, अवर सचिव

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 7(2)/2005-हि.अ.--केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नामक स्वायत्त संस्था के ए-1/9, सुमित कॉम्प्लेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.) स्थित उप-केन्द्र, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

अनिता भटनागर जैन, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. पीएफ/081/एनआईसी/2013-प्रशा.-I--श्री शिवचरण दास गुप्ता, वैज्ञानिक-एफ, (कर्मचारी कोड सं. 081), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली 31 जनवरी, 2013 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. ईआरबी-1/2012/16/5--रेलवे बोर्ड के कम्प्यूटर संवर्ग की श्रीमती शशि रावत जो कंसोल ऑपरेटर, जिसे 14.07.2011 को ग्रेड 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,200/- रु. के पे बैंड-2 में सहायक

(सिस्टम) के रूप में पुनः पदनामित किया गया है, के पद पर कार्यरत है, को 21.01.2013 के अपराह्न से तदर्थ आधार पर प्रोग्रामर (पे बैंड-2 ग्रेड 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु.) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

एच. के. जग्गी, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ए-12025/1/2010-ई-1--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 14.12.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/14/2011-सीएस.1 (डी) के तहत सीएसएस के नियमित अवर सचिव (ग्रेड-I) श्री ए.डी. जेम्स (सीएसएल सं. 5145) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 + 7,600/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप-सचिव (चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

- (i) तदर्थ नियुक्ति में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 4097/2011- (अरूण गौड बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 4616/2011- (वी.एस. पांडे बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 7619/2011- (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह और अन्य), रिट याचिका सं. 2176/2012- (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह और अन्य) और अन्य संबंधित रिट याचिका संख्याएं रिट याचिका (सिविल) 2523/2012- (भारत संघ बनाम अनंत किशोर सरण), रिट याचिका (सिविल) 2524/2012- (भारत संघ बनाम शेरशा और अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2525/2012- (भारत संघ बनाम सैयद इम रिजवी और अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2526/2012- (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सिविल) 2527/2012- (भारत संघ बनाम सोमया चटोपाध्याय और अन्य) तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 9653/2012 (भारत संघ बनाम सैयद इकरम रिजवी और अन्य) के अंतिम आदेश और किसी भी संबंधित मामाले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अन्य आदेश के अनुसार होगी।
- (ii) इस तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना, चयन ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।
- (iv) यह तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और इसे बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

एच.आर. मीणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 01/2013 फाइल सं. 2/2/2011-प्रशा. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/11/2011 सीएस-1 (यू) के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों, जो वर्तमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में स्थानापन्न हैं, को दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से चयन सूची वर्ष-2010 के लिए नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.
1.	श्री सी.एस. राव	6626
2.	श्री राजेन्द्र सिंह (एसटी)	6848

2. नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति ऊपर निर्दिष्ट किए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

सं. 06/2013 फाइल सं. 2/1/2010 प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद (सीएसएल सं. 7892) को 31.05.2013 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों के होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए 1 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न, में तदर्थ आधार पर, विद्युत मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस. आई (यू) में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होगी।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 6/162/88-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के डॉ. जुगल किशोर, वैज्ञानिक 'एफ' दिनांक 31 जनवरी, 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सं. 6/115/86-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री बिरेन्द्र सिंह नेगी, वैज्ञानिक 'ई' दिनांक 31 जनवरी, 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2013

सं. 1/2013 फाईल सं. 1/9/2004-प्रशा. (पी.टी) I--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 18.12.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12015/1/2012-आईएसएस के माध्यम से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के एनएफएसजी स्तर के अधिकारी, डॉ. एस.पी. शर्मा की जल संसाधन मंत्रालय में हुई तैनाती के परिणामस्वरूप, उन्हें 19.12.2012 के पूर्वाह्न से जल संसाधन मंत्रालय में निदेशक (एमआई) सांख्यिकी स्कंध के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. 10.12.2012 से 18.12.2012 की अवधि को "अनिवार्य प्रतीक्षा" माना जाएगा।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. 04/2013 फाईल सं. 22/672/2010-प्रशा. (पार्ट)--जन संसाधन मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर स्व-स्थाने प्रोन्नयन के लिए नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री जी. मोहन कुमार, आईएसएस (ओआर : 79) को जल संसाधन मंत्रालय में, शीर्ष वेतनमान 80,000/- रु. (नियत) में, दिनांक 11.01.2013 के पूर्वाह्न से विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 1/2013 फाईल सं. 3/3/2012-स्थापना-1--के अनुसरण में निम्नलिखित वरिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों ने पदोन्नति स्वरूप, उनके नाम के आगे दर्शाई तारीख से पदभार ग्रहण किया :--

श्री/श्रीमती	
1. मनोज कुमार मीणा	29.08.2012 अपराह्न
2. एम. साई सुदर्शनम	29.08.2012 अपराह्न
3. मनोज कुमार	29.08.2012 अपराह्न
4. सीस पाल गिल	30.08.2012 पूर्वाह्न
5. पी. राजेन्द्रन	30.08.2012 पूर्वाह्न
6. अनिल कुमार सिंह	29.08.2012 पूर्वाह्न
7. संजय कुमार	29.08.2012 पूर्वाह्न
8. रतन कुमार झा	29.08.2012 पूर्वाह्न
9. अशोक के. जेफ	03.09.2012 पूर्वाह्न
10. संजीव कुमार	06.09.2012 पूर्वाह्न
11. मिथिलेश प्रसाद सिंह	13.09.2012 पूर्वाह्न
12. ए. एस. बनोडे	30.08.2012 पूर्वाह्न

13. राधे श्याम सिंह	30.08.2012 पूर्वाह्न
14. मो. फौज. सईद	24.09.2012 पूर्वाह्न
15. राजेन्द्र कुमार बेहेराम	05.10.2012 पूर्वाह्न
16. अभय कुमार सिंह	09.10.2012 पूर्वाह्न
17. गुरुप्रसाद जे.	10.09.2012 पूर्वाह्न
18. ब्रज किशोर	25.10.2012 पूर्वाह्न
19. शमीम अहमद खान	20.11.2012 पूर्वाह्न
20. देवेन्द्र प्रसाद सिंह	29.11.2012 पूर्वाह्न
21. ए. थारानिराजन	03.12.2012 पूर्वाह्न
22. अजय कुमार सिन्हा	19.09.2012 पूर्वाह्न
23. ए. कृष्णा राव	05.09.2012 पूर्वाह्न
24. अनिल कुमार सिन्हा	30.10.2012 पूर्वाह्न
25. एन.सी. नंदा	01.11.2012 पूर्वाह्न
26. अर्जुन प्रसाद	24.09.2012 पूर्वाह्न
27. अशोक कुमार सिंह	29.08.2012 पूर्वाह्न
28. कामेश्वर तिवारी	25.10.2012 पूर्वाह्न

नरेंद्र सिंह, अवर सचिव

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. ए-12025/1/2009-आईआईएस (खंड II)--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम (पूरक सूची) के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 (संशोधन-पूर्व वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु.) समूह 'क' के भारतीय सूचना सेवा के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एम.आर. रजितचंद्रन	983	29.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री नेहा जलाली	1000	01.11.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अंशुमन मिश्रा	1001	23.10.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री ऋतुराज	1002	01.11.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री अरविंद कुमार जैन	1007	01.11.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री नदीम थूफेल टी.	1014	06.12.2012 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
7.	श्री विनोद कुमार डी.वी.	1023	06.12.2012 (पूर्वाह्न)
8.	श्री सुरेश कुमार जेडेला	1029	10.12.2012 (पूर्वाह्न)
9.	सुश्री मयूषा ए.एम.	1031	19.11.2012 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. इन्हें अगले आदेशों तक निम्नलिखित माध्यम एककों में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है :--

1. श्री एम.आर. रजितचंद्रन-समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी, नई दिल्ली
2. सुश्री नेहा जलाली-समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी, नई दिल्ली
3. श्री अंशुमन मिश्रा-दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
4. श्री ऋतुराज-प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5. श्री अरविंद कुमार जैन-विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली
6. श्री नदीम थूफेल टी.-पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
7. श्री विनोद कुमार डी.वी.-दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
8. श्री सुरेश कुमार जेडेला-ईएमएमसी, नई दिल्ली
9. सुश्री मयूषा ए.एम.-समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली

नीरज कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2013

सं. ए-12025/1/2011-आईआईएस-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2011 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' नाम के कनिष्ठ ग्रेड में 5,400/- रु. (संशोधन-पूर्व वेतनमान 8,000-275-13,500/- रु.) के ग्रेड पे के साथ 15,600-39,100/- रु. के पे बैंड में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	रैंक नं.	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री धीप जॉय मॉम्पली	545	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री धन्या सनल. के.	771	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री दिलीप कुमार शुक्ला	780	12.12.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री भारत. आर	900	07.01.2013 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री महिमा वशिष्ठ	601	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री अखलेश कुमार शर्मा	886	07.01.2013 (पूर्वाह्न)
7.	सुश्री पार्वती राहुल	586	03.09.2012 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक निम्नलिखित मीडिया एककों में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है :--

1. श्री धीप जॉय मॉम्पली-समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी, नई दिल्ली
2. सुश्री धन्या सनल. के.-दूरदर्शन, नई दिल्ली
3. श्री दिलीप कुमार शुक्ला-समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली
4. श्री भारत. आर-समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली
5. सुश्री महिमा वशिष्ठ-दूरदर्शन, नई दिल्ली
6. श्री अखलेश कुमार शर्मा-ईएमएमसी, नई दिल्ली
7. सुश्री पार्वती राहुल-दूरदर्शन, नई दिल्ली

नीरज कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2013

सं. ए-22011/4/2012 प्रशा.-I-राष्ट्रपति द्वारा श्री रोबिन अदावल आईटीएस (1994) को दिनांक 14.01.2013 (अपराह्न) से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो 37,400--67,000/- रु के पे बैंड-4 तथा 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 जनवरी 2013

सं. ए-32013/1/2011-प्रशा-I(भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 दिसम्बर, 2012, 12 दिसम्बर, 2012 और 28 दिसम्बर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012/सीएस.1(यू) के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अपर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति होने पर शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में नामांकन किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति सीएसएस कैडर के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	सीएसएस नाम	कार्य मुक्त करने वाला मंत्रालय	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	7616	आर.डी.एस. भण्डारी प्रधान मंत्री कार्यालय	14.12.2012 (पूर्वा.)
2.	7701	गजराज सिंह	21.12.2012 (पूर्वा.)

1	2	3	4	5
3.	7736	अरूण बनर्जी	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	28.12.2012 (पूर्वा.)
4.	7841	अजीत कुमार	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	27.12.2012 (पूर्वा.)
5.	7878	आई.एम. खान	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	31.12.2012 (अपरा.)
6.	7875	जसबीर सिंह	वाणिज्य विभाग	01.01.2013 (पूर्वा.)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकारण नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओ. ए. सं. 1083/2007 के अंतिम परिणाम और कार्यालय ज्ञापन सं. 1083/2007 के अलावा संबंधित किसी अन्य मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्याधीन होगी और उन्हें

में अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या सीएसएस के ग्रेड-I वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं.-ए. 22011/01/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री रवि माथुर, भा.प्र.से. (आरजे : 79) को 11 जनवरी, 2013 से 13 जनवरी, 2013 तक यथा स्थाने आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. ठाकुर, अवर सचिव



## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th January 2013

No. RS/3/1/1/2012/5-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons, presently in the grade of Legislative/Protocol/Committee/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat, as Assistant Director on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 22nd December, 2012 and until further orders :—

1. Smt. Manjit Kaur
2. Shri Deepak Kalra
3. Smt. Subha Chandrashekar
4. Smt. Harshita Shankar

D. B. SINGH, Additional Secy.

New Delhi-110001, the 18th January 2013

No. RS/6/4/2012/8-Perl.—The services of Shri Mohan Singh Sen, Senior Private Secretary on the personal staff of former Chairman, Committee on Ethics (Dr. Karan Singh), stand terminated w.e.f. the afternoon of 26th December, 2012 after granting him a winding up period from 2nd December to 26th December, 2012.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS/6/4/2012/9-Perl.—Shri Mohan Singh Sen has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on the personal staff of Chairman, Committee on Provision of Computers to Members of Rajya Sabha (Dr. Karan Singh) in the Pay Band-3 + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 27th December, 2012 and until further orders.

2. The appointment of Shri Mohan Singh Sen is at the discretion of the Chairman, Committee on Provision of Computers to Members of Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 1st February 2013

No. RS/20/1/2013/10-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Umesh Kumar Sarin, Assistant Director, retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 24th January 2013

No. 2/1(1)/2013-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Advanced Data

Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 01.07.2012 and until further orders:

Sl. No.	Name	Post to which Promoted
Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. Novaline Jacob	Scientist/Engineer-SG
2.	Shivendra Singh Solanki	Scientist/Engineer-SF
3.	A. Sai Venkata Lakshmi	Scientist/Engineer-SF
4.	J. Srinivasulu	Scientist/Engineer-SF
5.	D. Sita	Scientist/Engineer-SE
6.	Nidhi Chaubey	Scientist/Engineer-SD
7.	Hari Om Prakash	Scientist/Engineer-SD
8.	S. Saravanan	Technical Officer-C

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

## UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 23rd January 2013

No. A-19012/63/13-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 04.01.13 and Ministry of Health & Family Welfare order No. A-35014/1/2013-Estt. II dated 16.01.2013, Shri S. Gopala Krishna has assumed the charge of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 21.01.13 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJESH KUMAR, Dy. Dir. (Estt.)

No. A-19012/64/13-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 04.01.13 and Ministry of Corporate Affairs office order No. PFA(460)/2007-Ad-I dated 21.01.2013, Shri S. Ragothaman has assumed the charge of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 21.01.13 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJESH KUMAR, Dy. Dir. (Estt.)

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

## (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 24th December 2012

No. A-12034/3/2012-Admn.IV(LA)Part-II—The President is pleased to appoint Smt. Nirmal Kohli as Additional Private

Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Dr. Ashwani Kumar) w.e.f. 12.11.2012 (F/N) in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. The appointment of Smt. Nirmal Kohli is at the pleasure of, and co-terminus with the tenure of Dr. Ashwani Kumar as Minister of Law & Justice.

ASHA SOTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 2013

No. I-14011/13/2012-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 15.01.2013, approved the Select List of the year 2011, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 02.11.2012, containing the name of the following State Police Service Officer of Uttarakhand, towards filling up 1 (one) substantive vacancy in the Uttarakhand Cadre of IPS :—

##### Select List 2011

Shri Yogendra Singh Rawat 05.11.1967

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/13/2012-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Uttarakhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

##### Select List 2011

Sh. Yogendra Singh Rawat 05.11.1967

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 2013

No. A-32013/08/2011-Ad.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2011-CS.I (U), dated 26.11.2012, the following permanent Section Officer of CSS Cadre and presently on deputation with Ministry of

External Affairs working as Deputy Passport Officer, Jaipur is appointed to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis consequent upon inclusion of his name in the Select List for year 2009 with effect from 1st July 2009 :—

CSL No.	Name	Seniority assigned in Grade-I of CSS as per annexure to the DoP&T's OM No. 5/11/2011-CS.I (U), dated 26.11.2012 (Annexure. I)
6750	S. R. Meena	267

2. The appointment of the above officer included in the Select List of 2009 to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in OA No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UOI & Ors." in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any competent court of any of the connected matters.

SUROJIT GHOSH, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th November 2012

No. 39/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Kumar (DoB : 05.09.1952), an officer of the Integrated Grades-II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th September, 2012.

2. This issues in supersession of Notification No. 36/PB-I/2012 dated 17th October, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Admn. Officer (PB-I)

The 23rd November 2012

No. 40/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Malhotra (DoB : 01.11.1952), an officer of the Integrated Grades-II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st October, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Admn. Officer (PB-I)

The 26th November 2012

No. 41/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Bhim Sen Pahwa (DoB : 07.10.1952), an officer of the Integrated Grades-II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st October, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Admn. Officer (PB-I)

New Delhi, the 11th January 2013

No. Q/02/PA-II/2013—On the basis of the results of the Civil Services(Main) Examination, 2011 held by the Union Public Service Commission, New Delhi, the President is pleased to appoint the following 37 (Thirty Seven) candidates as Indian Foreign Service (IFS) Probationers in the Ministry of External Affairs, New Delhi, with effect from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
1.	Ms. Gitanjali Brandon	3rd September, 2012 (F/N)
2.	Ms. Priyanka Sohoni	3rd September, 2012 (F/N)
3.	Md. Sharique Badr	3rd September, 2012 (F/N)
4.	Sh. Bastian Nonginiyil Chacko	3rd September, 2012 (F/N)
5.	Ms. Kiran Khatri	3rd September, 2012 (F/N)
6.	Sh. Vikram Vardhan	3rd September, 2012 (F/N)
7.	Ms. Sneha Dubey	3rd September, 2012 (F/N)
8.	Sh. G. Aparna	3rd September, 2012 (F/N)
9.	Sh. Jeysundhar D.	3rd September, 2012 (F/N)
10.	Ms. S. Rakhi Mayuri	3rd September, 2012 (F/N)
11.	Sh. Avinash Kumar Singh	3rd September, 2012 (F/N)
12.	Ms. Priyadharsini R.	3rd September, 2012 (F/N)
13.	Sh. Stephen Mani	3rd September, 2012 (F/N)
14.	Ms. Shalia Shah	3rd September, 2012 (F/N)
15.	Sh. Shishir Kothari	3rd September, 2012 (F/N)
16.	Sh. Kshitij Tyagi	3rd September, 2012 (F/N)
17.	Sh. Naveen Kumar R.	3rd September, 2012 (F/N)
18.	Sh. Neeraj Kumar	3rd September, 2012 (F/N)
19.	Ms. Asha Antony	3rd September, 2012 (F/N)
20.	Dr. Aseem Vohra	24th December, 2012 (A/N)
21.	Sh. Akhilesh Singh	3rd September, 2012 (E/N)
22.	Sh. Midhun T. R.	3rd September, 2012 (F/N)
23.	Ms. Shashwati Arya	3rd September, 2012 (F/N)
24.	Sh. Yumkhaibam Sabir	3rd September, 2012 (F/N)
25.	Sh. Richhpal Singh	3rd September, 2012 (F/N)
26.	Ms. Rocheus Sukanya J.	3rd September, 2012 (F/N)
27.	Sh. Krishna K.	3rd September, 2012 (F/N)
28.	Sh. Kumar Praveen	3rd September, 2012 (F/N)
29.	Sh. Triloki Nath Kaushal	3rd September, 2012 (F/N)
30.	Sh. Vaibhav A. Tandale	3rd September, 2012 (F/N)
31.	Sh. Mesariya Vipulkumar Hiralal	3rd September, 2012 (F/N)
32.	Ms. Tseten Nordon Cargyal	3rd September, 2012 (F/N)

1	2	3
33.	Ms. Suman Kansotiya	3rd September, 2012 (F/N)
34.	Ms. Nidhi Choudhary	3rd September, 2012 (F/N)
35.	Ms. Irina Masoom	3rd September, 2012 (F/N)
36.	Ms. Ann Rammawii Haokip	3rd September, 2012 (F/N)
37.	Sh. Kannan C.	3rd September, 2012 (F/N)

2. On their appointment, the above mentioned thirty seven officers assumed charge as Indian Foreign Service Probationers with effect from the date shown against their names.

SUJA K. MENON, Under Secy. (FSP-II)

The 15th January 2013

No. 4/PA-II/2013—The Ministry of External Affairs regret to announce the sad demise of Shri Samuel Kujur, an officer in Grade-I of IFS(B) on 09.01.2013. His name has, therefore, been deleted from the rolls of this Ministry.

SUJA K. MENON, Under Secy.

#### MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 1st February 2013

No. A-19011/5/2011/PA—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement from Government Service by the Competent Authority, Shri M. V. N. S. Syamlal, Principal Private Secretary in the Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st January, 2013.

KSHITIJ MOHAN, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

#### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th January 2013

No. 02 of 2013 (F. No. A-32011/02/2006-Ad.VI)—Shri S. K. Joshi, IRS (IT) (93562 A), Joint Commissioner of Income Tax (Retd.) is hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 25.02.2006 i.e. date from which his immediate junior, Ms. Richa Khoda (93080) was granted NFSG.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 22nd January 2013

No. 11016/4/2012-IES—The President is pleased to appoint the following Grade-IV Officers (Junior Time Scale)

of Indian Economic Service of 2009 batch on regular basis after successful completion of probation and subsequent confirmation with effect from 3rd January, 2013 :—

Sl. No.	Name
---------	------

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1. | Shri Songeireng Khupboi Aimol |
| 2. | Shri Karanjit Singh Nangbam   |
| 3. | Ms. Monika Singh              |

A. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-22011/1/2013-Ad.IA—The President is pleased to appoint Ms. Anuradha Guru (IES : 99) as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 14.01.2013 (FN).

IPSITA MITRA, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-19011/5/2009/Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 18/1/2013-EO (SM.I) dated 24.01.2013, the President is pleased to appoint Shri Nilaya Mitash, IAS (KN : 91), as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 24th January, 2013 for the balance period of his central deputation tenure i.e. upto 31.05.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 1st October 2012

No. A-19011/311/2011-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri D. K. Mittal, IAS (UP : 1977), Secretary, Department of Financial Services will retire from the Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2013

No. A-19011/333/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Tirth Ram, Section Officer (CSL No. 7180), of Central Secretariat Service in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development to the Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on an ad hoc basis in Department of Financial Services, Ministry of Finance with

effect from the afternoon of 31st December, 2012 for a period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The 'ad hoc' promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The officer will have to undergo mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, as per nominations made by DoPT if he has not undergone it earlier.
- (iv) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (v) The 'ad hoc' promotion of Shri Tirth Ram shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any Competent Court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 23rd January 2013

No. A-12026/4/2008-Admn.I(Vol.II)—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad hoc basis upto 30th June, 2013 or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

1. Shri Sharad N. Hulale
2. Shri Sunil Kumar
3. Shri K. J. Bhatt
4. Shri Dal Chand Kaim
5. Shri S. N. Rana
6. Smt. Pushpa Gautam
7. Shri Rakesh Kumar Singh
8. Smt. Sudesh Arora
9. Shri Shyam Saroop
10. Smt. Radha Sudhakaran

2. All other terms and conditions for ad hoc promotion of the above officials will be same as stipulated in the DoP&T's OM No. 6/17/2012-CS.I(S) dated 08th January, 2013.

JITENDRA R. GAIKWAD, Under Secy.

No. A-12026/1/2012-Ad.I—Consequent upon inclusion in the Select List of Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) circulated vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/11/2011-CS-I (U) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint the following officer of the Department of Expenditure, Ministry of Finance to Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of the Select List Year corresponding to their names and until further orders :—

Sl. No.	Name	CSL No.	CSL Year
1.	Smt. Renu Kakkar	6145	2009
2.	Shri S. Krishnamoorthi	6196	2009
3.	Shri Sukh Lal Meena	6753	2009
4.	Shri Anindya Bhattacharya	6576	2010
5.	Shri Anil Sharma	6669	2010

2. The inter-se-seniority of above mentioned officers in Grade-I (Under Secretary) of CSS will follow the serial order given in the Select List, irrespective of their actual date of appointment to that Grade. The appointment of officers included in the Select List 2009, to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the OA No. 611/2012 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors. in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012 and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

JITENDRA R. GAIKWAD, Under Secy.

The 24th January 2013

No. A-12026/1/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' (PA) (officiating as ad hoc PS) in the CSSS cadre to the post of Steno Grade 'A&B' (merged) (PS) on the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on regular basis against the Seniority Quota (SQ) for the Select List Year 2010 (extended) with effect from the dates indicated against their names :—

Sl. No.	CSL No.	Name	With effect from
		(Shri/Smt./Miss.)	
1.	815	Sunil Kumar	01.01.2013 (F/N)
2.	1050	Kavita Sandhu	04.01.2013 (A/N)

JITENDRA R. GAIKWAD, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 14th January 2013

No. 9/8/2012-Admn.—In pursuance of Ministry of Drinking Water & Sanitation's Office Order No. A-15015/02/2012-Admn./840 dated 27th December, 2012 read with Department of Personnel & Training O.M. No. 5/9/2012-CS-I (U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Ragesh Kant, (CSL No. 7225), as Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad hoc basis in the Department of Disinvestment in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- (PB-3) with effect from the forenoon of 31st December, 2012.

2. In pursuance of DoPT's O.M. No. 5/9/2012-CSI (U) dated 19th November, 2012 read with Government of India's decision under FR-22 as conveyed vide Ministry of Finance's O.M. No. F.1(7)-E.III(A)/78 dated 14.03.1978, Shri Ragesh Kant who had been undergoing Level 'D' Training Programme in ISTM from 29.10.2012 to 21.12.2012 is deemed to have assumed the charge of the post of Under Secretary on ad hoc basis with effect from the forenoon of 30th October, 2012 i.e. the date on which his junior has assumed the charge of Under Secretary in the Central Secretariat Service in the Department of Commerce.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

The 15th January 2013

No. 9/1/2013-Admn.—In pursuance of Department of Expenditure (Cadre Administration Sections') O.M. No. 12026/8/2010-CAS dated 8th January, 2013 read with Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17.07.2012 and 23.11.2012, the President is pleased to appoint Smt. Kiran Birdi, as Private Secretary of CSSS on regular basis for the Select List Year 2010 (part) & (extended) under the Zoning Scheme for Seniority Quota, in the Department of Disinvestment in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- (PB-2) with effect from the forenoon of 1st January, 2013. Consequently, she has been taken on the rolls of this Department as Private Secretary of CSSS on regular basis from that date.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

No. 9/2/2013-Admn.—Shri Ravi Mathur, IAS (RJ : 79), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Department of Disinvestment (Ministry of Finance) with effect from the forenoon of 14th January, 2013.

ASHISH KUMAR, Under Secy

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 16th January 2013

No. A-32015/7/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Shri Nafe Singh, Private Secretary (ad hoc) of CSSS as regular Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the Department of Commerce (Supply Division) for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. the forenoon of 14.01.2013.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 22nd January 2013

No. A-32015/7/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Davinder Kaur, Private Secretary (ad hoc) of CSSS as regular Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the Department of Commerce (Supply Division) for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. the forenoon of 15.01.2013.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st January 2013

No. 2/2013 (A-19011/2/2012-Estt.)—Ms. Kiran Dhingra, IAS (UT : 75) Secretary, Ministry of Textiles, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 2nd January 2013

No. A-12011/10/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, IRS (C&CE : 1993) as Private Secretary to the Minister for Petroleum and Natural Gas (Dr. M. Veerappa Moily) as Director level in the Ministry of Petroleum and Natural Gas on 'Lateral shift' basis with effect from 29.10.2012 and for the balance period of his central deputation tenure as Private Secretary i.e. upto 03.09.2013 or co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 22nd January 2013

No. A-12011/01/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training Letter No. 6/3/2013-EO (SM.I) dated

17th January, 2013, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Bhargava, IAS (RJ : 79), presently Additional Secretary in the Ministry, as Special Secretary, on in situ basis by temporarily upgrading the post held by the officer, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas w.e.f. the forenoon of 11th January, 2013.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 23rd January 2013

No. 23011/20/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Shri P. Bairagi Sahu, Under Secretary (ad hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2010 in the Department of Fertilizers w.e.f. 26.11.2012 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/11/2012-CS.I(U) dated 26.11.2012.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 23011/20/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Kulwant Singh Rana, Under Secretary (ad hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2009 in the Department of Fertilizers w.e.f. 26.11.2012 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26.11.2012.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 23011/20/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Sowmendra Chanda, Under Secretary (ad hoc) as Under Secretary on regular basis against the Select List 2009 in the Department of Fertilizers w.e.f. 26.11.2012 (F/N) subject to the conditions contained in DoPT's Order No. 5/11/2011-CS.I(U) dated 26.11.2012.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 22nd January 2013

No. 5(7)/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 6/3/2013 EO(SM-1) dated the 17th January, 2013, the President is pleased to appoint Shri E. K. Bharat Bhushan, Addl. Secretary and Financial Advisor in Ministry of Steel as Special Secretary and Financial Advisor on in situ basis w.e.f. 11th January 2013 by temporary upgrading the post held by him.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 24th January 2013

No. 5(2)/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 17/1/2013 EO(SM-1) dated the 22nd January, 2013, the President is pleased to appoint Dr. Dalip Singh, Joint Secretary in the Ministry of Steel as Additional Secretary on in situ basis w.e.f. 10th December, 2012 by temporarily upgrading the post held by him.

S. K. GUPTA, Under Secy.

---

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th January 2013

No. 12/4/2010-ASO—In continuation of this Ministry's Notification No. 12/4/2010-ASO dated 5th January, 2011, the President is pleased to extend the tenure of Ms. Anjali Anand Srivastava, IA & AS (82) as Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Coal for a period of three months beyond 29.12.2012.

S. ASHRAF, Dy. Secy.

The 31st January 2013

No. 12/5/2007-ASO—In continuation of this Ministry's Notification No. 12/5/2007-ASO dated 30th October, 2012, the President is pleased to extend the tenure of Shri P. Soma Shekar Reddy, IRS (IT:91) as Director in the Ministry of Coal for a period of three months beyond 11.01.2013.

S. ASHRAF, Dy. Secy.

New Delhi, the 31st December 2012

No. A-15012/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012/CS-I(U) dated 06.12.2012, Shri Sanjib Bhattacharya (CSL No. 7807), Section Officer in the Ministry of Defence, is appointed to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Coal purely on ad hoc basis w.e.f. 18.12.2012 (F/N) upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, subject to conditions mentioned in the DoP&T's Order dated 06.12.2012 referred above.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

---

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &  
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 24th January 2013

No. A-12011/9/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Ashokan, a regular Deputy Director (Cooperation) in Department of Consumer Affairs to the post of Director (Cooperation) in the Pay Band PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on purely

ad hoc basis for a period of one year with effect from the forenoon of 14.01.2013.

G. N. SINGH, Dir. (Estt.)

The 28th January 2013

No. A-12011/11/2005-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 6/3/2013-EO(SM.I) dated 17.07.2013, the President is pleased to appoint Shri Afzal Amanullah, IAS (BH:79) as Special Secretary in the Department of Consumer Affairs on in-situ basis by temporarily upgrading the post of Additional Secretary in the rank and pay of Secretary, i.e. Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 11.01.2013 and until further orders.

G. N. SINGH, Dir. (Estt.)

---

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 31st December 2012

No. A-32013/1/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Suman Mahi as Principal Private Secretary of CSSS Cadre on regular basis against the Select List Year 2011 in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. 16.11.2012 (Forenoon) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 2nd January 2013

No. A-12022/1/2009-E.I.—Consequent on his promotion from Grade-I (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary), vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 31.07.2012, the President is pleased to appoint Shri Mehar Singh Azad as Deputy Secretary in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution), purely on ad hoc basis, with effect from the forenoon of 21.12.2012 and until further orders.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

---

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th January 2013

No. SM/01/18/2011—The President is pleased to promote the following officers holding the post of Superintending Surveyor in Survey of India to the post of Director (Defence Stream) in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- in

Survey of India with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Placement
1.	Lt. Col. S. Sridhara Rao	27.12.2012
2.	Lt. Col. Arun Kumar D	26.12.2012
3.	Lt. Col. B. Sareen Chander	26.12.2012
4.	Lt. Col. Amardeep Singh	26.12.2012

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 28th January 2013

No. A-12011/04/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Prof. K. Vijay Raghavan as Secretary, Department of Biotechnology in the Ministry of Science & Technology with effect from the forenoon of 28th January, 2013.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 31st January 2013

No. A-38011/13/2012-Estt.—Dr. Vinod Prakash Gupta, Scientist 'G' in the Department of Biotechnology retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013 on superannuation.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 31st January 2013

No. A.12025/219/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Hemant Agarwal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15.04.2008 until further orders. Dr. Hemant Agarwal is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on a probation period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

The 4th February 2013

No. A.12025/220/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anil Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 13.06.2008 until further orders. Dr. Anil Kumar is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on a probation period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

(AYUSH)

New Delhi-110023, the 24th January 2013

No. Z-16011/27/2006-RTI(Ay.)—In pursuance of Section 5(1), 5(2) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and in partial modification to earlier order of even No. dated 31.08.2012 the following officers of Department of AYUSH are hereby designated as Central Public Information Officer and Assistant Public Information Officer in respect of the subject matter mentioned against their names :—

#### CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

1.	Sh. R. S. Sinha, Director	24651966 Dir-ayush@nic.in	1.	All Matters relating to National Institutes i.e.
			(i)	AIIA, New Delhi
			(ii)	National Institute of Ayurveda, Jaipur
			(iii)	RAV, New Delhi
			(iv)	IPGTRA, Jamnagar
			(v)	NEIFM, Pasighat
			(vi)	NEIAH, Shillong
			(vii)	National Institute of Siddha
			(viii)	National Institute of Unani Medicine
			(ix)	National Institute of Homoeopathy
			(x)	Morarji Desai National Institute of Yoga
			(xi)	National Institute of Naturopathy



- |    |  |                                |  |
|----|--|--------------------------------|--|
| 2. | Dr. Manoj Nesari,<br>Joint Advisor (Ay.) | 24651972<br>drnesari@gmail.com | 2. Matters relating to HRD in ASU including education, training and grant of permission to existing and new ASU medical colleges<br>3. Vigilance matters<br>4. IMPCL<br>5. All matters relating to IMCC Act & CCIM<br>1. Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine (PCIM)<br>2. Technical Wing of Research Desk for Coordination and monitoring of Research Activities within and outside Research Councils to encourage and facilities AYUSH research |
|----|--|--------------------------------|--|

---

ASSISTANT CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

---

- |    |  |                                  |  |
|----|--|----------------------------------|--|
| 1. | Smt. Jasmine James,<br>Under Secretary | 24651975<br>jasmine.james@nic.in | 1. All Matters relating to Research Councils i.e.<br>(i) Central Councils for Research in Ayurveda Sciences (CCRAS)<br>(ii) Central Council for Research in Siddha (CCRS)<br>(iii) Central Council for Research in Homoeopathy<br>(iv) Central Council of Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN)<br>(v) Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM)<br>2. Matters relating to quality and standard of ASU&H Drugs and Cosmetics Act; and CSS of Drug Quality Control<br>3. Matters relating to HRD in ASU including education, training and grant of permission to existing and new ASU medical colleges<br>4. Matters relating to HRD in Homoeopathy including education, training and grant of permission to existing and new Homoeopathy medical colleges<br>5. NMPB<br>6. IMPCL<br>7. Centrally Sponsored Scheme for Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH and NRHM-Scheme<br>8. Scheme for Continuing Medical Education and Exposure programs of AYUSH<br>9. All matters relating to IMCC Act & CCIM<br>10. All matters relating to HCC Act & CCH |
| 2. | Sh. Anjan Biswas,<br>Under Secretary   | 24651975                         | 1. Vigilance matters<br>2. Cash relating matters<br>3. Matter relating to Budget<br>4. Nomination of candidates from deficient States to Graduate and Post Graduate courses<br>5. Scheme on Development of AYUSH Institutions<br>6. Scheme for Promotion of International Co-operation (IC) in AYUSH; TKDL, IPR Issues<br>7. Plan and Budget<br>8. Scheme for Promotion of Information, Education, and Communication (IEC) in AYUSH; Assistance for Exchange Programme/Seminar/Conference/Workshop on AYUSH<br>9. PLIM, HPL and Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine (PCIM)<br>10. Scheme of Public Health Initiatives scheme (PHI)   |

11. Scheme for development of AYUSH clusters; Scheme for Revitalization of Local Health Traditions, Midwifery Practices etc.
12. Scheme for Acquisition, Cataloguing, Digitization and Publication of Text Books & Manuscripts
13. Scheme for upgradation to Centers of Excellence (COE)
14. Cash relating matters
15. Scheme for Extra Mural Research (EMR) projects on Indian Systems of Medicine and Homoeopathy
16. TKDL Project.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

The 31st January 2013

No. A-38012/2/09-E-I. (AYUSH)—Dr. Sadananda Sahu, Deputy Adviser (Homoeopathy), Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.01.2013 (AN).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 29th January 2013

No. 38011/04/2012 E.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Raj Kumar Sharma, Liaison & Protocol Officer in the Department of Agriculture & Cooperation, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

K. SANJAYAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING  
& FISHERIES

New Delhi, the 31st January 2013

No. A-15012/08/2012-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri Ravinder Singh, Assistant Commissioner in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

D. BANERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 14th January 2013

No. A-32013/4/2010-Admn.I—The President is pleased to appoint Smt. Veena Prinja [CSL No. 7791] regular Section Officer of CSS Cadre as Grade-I (Under Secretary of CSS on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in Department of Telecommunications, Ministry of

Communication & Information Technology in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 06.12.2012 w.e.f. forenoon of 06.12.2012.

2. The appointment of the officer, as above is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.
- (iii) The appointment on ad hoc basis will take effect from the date of assuming the charge of the post of Under Secretary in the Ministry/Department to which the officer has been allocated.
- (iv) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (v) The officers, who have not undergone mandatory level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by DoP&T.
- (vi) The ad hoc promotion of officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA in 1083/2007.

VIMAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION  
TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the January 2013

No. 7(2)/2005-H. S.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Sub-centre of National Institute of Electronics

and Information Technology (NIELIT), an autonomous society under the administrative control of the Department of Electronics & Information Technology, located at A-1/9, Sumit Complex, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.), more than 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

ANITA BHATNAGAR JAIN, Jt. Secy.

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 31st January 2013

No. PF/081/NIC/2013/Adm.-I—Shiv Charan Das Gupta, Scientist "F" (Emp. Code : 081), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013 and he stands relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.)

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st January 2013

No. ERB-I/2012/16/5—Smt. Shashi Rawat belonging to Railway Board Computer Cadre, holding the post of Console Operator redesignated as Assistant (System) in Pay Band-2 Grade Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/- as on 14.07.2011, has been promoted as Programmer (Pay Band-2 Grade Rs. 9,300—34,800/- + Grade pay Rs. 4,800/-) on ad hoc basis, with effect from the afternoon of 21.01.2013.

H. K. JAGGI, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 15th January 2013

No. A-12025/1/2010-E.I—In pursuance of Ministry of personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training)'s Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 14.12.2012, the President is pleased to appoint Shri A. D. James (CSL No. 5145), a regular Under Secretary (Grade-I) of CSS as Deputy Secretary (Selection Grade) in the Ministry of Road Transport & Highways on ad hoc basis in Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- Grade Pay, initially for a period of one year w.e.f 31.12.2012 (A.N.) or until further orders, whichever is earlier.

2. The afore-said ad hoc appointment is subject to the following conditions :

- (i) The ad hoc appointments is subject to the final outcome of the pending Writ Petition No. 4097/2011- (Arun Gaur Vs Garima Singh & Ors), W.P. No. 4616/2011 (V. S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W. P. No. 7619/2011-(UPSC Vs Garima Singh & Ors), W. P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Others) and other connected Writ Petitions Nos.

W. P. (C) 2523/2012 (Union of India Vs. Anant Kishore Saran), W. P. (C) No. 2524/2012-Union of India Vs. Shersha and Anr.), W. P. (C) No. 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr.), W. P. (C), W. P. (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W. P. (C) No. 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and the SLP (C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors. Vs. Union of India & Ors) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

- (ii) The ad hoc appointment shall not bestow on him any claim for regular appointment to the grade.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the grade would not count for the purpose of seniority in the selection grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The ad hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

H. R. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 31st January 2013

No. 01/2013, F. No. 2/2/2011. Adm. II—In pursuance of the Department of Personnel & Training's OM No. 5/11/2011-CS.I(U) dated the 26th November, 2012, the following officers of Ministry of Power, presently officiating in the Grade-I of CSS (Under Secretary), on ad hoc basis, are appointed to the grade of Under Secretary on regular basis against the Select List Year-2010 w.e.f. the forenoon of the 26th November, 2012 :—

Sl. No.	Name	CSL No.
1.	Sh. C. S. Rao	6626
2.	Sh. Rajendra Singh (ST)	6848

2. The appointment of the above mentioned officers to the grade of Under Secretary on regular basis is subject to the terms and conditions laid down in the DoPT OM referred to above.

P. P. BOSE, Under Secy.

No. 06/2013-F. No. 2/1/2010-Adm. II—The President is pleased to appoint Shri Kamaleshwar Prasad (CSL No. 7892), Section Officer of CSS borne on the Cadre of Ministry of Road Transport & Highways, to the Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Ministry of Power, on ad hoc basis, with effect from the forenoon of 1st January, 2013, for the period upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of above mentioned officer shall be governed by the terms and conditions contained in the Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 28th December, 2012.

P. P. BOSE, Under Secy.

#### MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 31st January 2013

No. 6/162/88-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Dr. Jugal Kishor, Scientist 'F' in this Ministry retired from Government Service with effect from 31st January 2013 (AN).

SURESH KUMAR, Under Secy.

No. 6/115/86-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri Birendra Singh Negi, Scientist 'E' in this Ministry retired from Government Service with effect from 31st January 2013 (AN).

SURESH KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th January 2013

No. 1/2003, F. No. 1/9/2004-Admn. (Pt.)—Consequent upon his posting to the Ministry of Water Resources vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/1/2012-ISS dated 18.12.2012, the President is pleased to appoint Dr. S. P. Sharma, an officer of NFSG level of Indian Statistical Service as Director (MI) Stats Wing in the Ministry of Water Resources with effect from the forenoon of 19.12.2012.

2. The period from 10.12.2012 to 18.12.2012 will be treated as "Compulsory Waiting".

L. P. SHARMA, Under Secy.

The 22nd January 2013

No. 04/2013, F. No. 22/672/2010-Admn. (Pt.)—Consequent upon approval of the Appointments Committee of the Cabinet for in-situ elevation to the post of Special Secretary in the Ministry of the Water Resources, the President is pleased to appoint Shri G. Mohan Kumar, IAS (OR : 79) as Special Secretary in the Ministry of Water Resources in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 11.01.2013.

L. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2013

No. 1/2013, File No. 3/3/2012-Estt.I—Consequent upon their promotion, the following Senior Time Scale Officers of the Central Water Engineering (Group 'A') Service has

assumed the charge from the dates mentioned against each of the officers :—

Sl. No.	Name	Date of charge assumption, as STS
	S/Shri	
1.	Manoj Kumar Meena	29.08.2012 (AN)
2.	M. Sai Sudarsanam	29.08.2012 (AN)
3.	Manoj Kumar	29.08.2012 (AN)
4.	Sis Pal Gill	30.08.2012 (FN)
5.	P. Rajendran	30.08.2012 (FN)
6.	Anil Kumar Singh	29.08.2012 (FN)
7.	Sanjay Kumar	29.08.2012 (FN)
8.	Ratan Kumar Jha	29.08.2012 (FN)
9.	Ashok K. Jeph	03.09.2012 (FN)
10.	Sanjeev Kumar	06.09.2012 (FN)
11.	Mithilesh Prasad Singh	13.09.2012 (FN)
12.	A. S. Banode	30.08.2012 (FN)
13.	Radhey Shyam Singh	30.08.2012 (FN)
14.	Mohd. Faiz Syed	24.09.2012 (FN)
15.	Rajendra Kumar Behera	05.10.2012 (FN)
16.	Abhay Kumar Singh	09.10.2012 (FN)
17.	Guru Prasad J.	10.09.2012 (FN)
18.	Braj Kishore	25.10.2012 (FN)
19.	Shamim Ahmed Khan	20.11.2012 (FN)
20.	Devendra Prasad Singh	29.11.2012 (FN)
21.	A. Tharanirajan	03.12.2012 (FN)
22.	Ajay Kumar Sinha	19.09.2012 (FN)
23.	A. Krishna Rao	05.09.2012 (FN)
24.	Anil Kumar Sinha	30.10.2012 (FN)
25.	N. C. Nanda	01.11.2012 (FN)
26.	Arjun Prasad	24.09.2012 (FN)
27.	Ashok Kumar Singh	29.08.2012 (FN)
28.	Kameshwar Tiwary	25.10.2012 (FN)

NARENDRA SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th December 2012

No. A-12025/1/2009-IIS (Vol. II)—On the basis of the result of the Civil Services, Examination 2010 (Reserve List), the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A'

in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Rank No.	Date of appointment
1.	Sh. M. R. Rajithchandran	983	29.10.2012 (FN)
2.	Ms. Neha Jalali	1000	01.11.2012 (FN)
3.	Shri Anshuman Mishra	1001	23.10.2012 (FN)
4.	Shri Rithuraj	1002	01.11.2012 (FN)
5.	Shri Arvind Kumar Jain	1007	01.11.2012 (FN)
6.	Shri Nadeem Thufail T.	1014	06.12.2012 (AN)
7.	Shri Vinod Kumar D. V.	1023	06.12.2012 (FN)
8.	Shri Suresh Kumar Gedela	1029	10.12.2012 (FN)
9.	Ms. Mayusha A.M.	1031	19.11.2012 (FN)

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors in the following media units until further orders :—

1.	Sh. M. R. Rajithchandran	NSD : AIR, New Delhi
2.	Ms. Neha Jalali	NSD : AIR, New Delhi
3.	Shri Anshuman Mishra	Doordarshan News, New Delhi
4.	Shri Rithu Raj	Publications Division, New Delhi
5.	Shri Arvind Kumar Jain	DAVP, New Delhi
6.	Shri Nadeem Thufail T.	PIB, New Delhi
7.	Shri Vinod Kumar D. V.	Doordarshan News, New Delhi
8.	Shri Suresh Kumar Gedela	EMMC, New Delhi
9.	Ms. Mayusha A.M.	NSD : AIR, New Delhi

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

The 13th January 2013

No. A-12025/1/2011-IIS—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2011, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of

Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Rank No.	Date of appointment
1.	Sh. Dheep Joy Mampilly	545	03.09.2012 (FN)
2.	Ms. Dhanya Sanal K.	771	03.09.2012 (FN)
3.	Shri Dileep Kumar Shukla	780	12.12.2012 (FN)
4.	Shri Bharath R.	900	07.01.2013 (FN)
5.	Ms. Mahima Vashisht	601	03.09.2012 (FN)
6.	Shri Akhlesh Kumar Sharma	886	07.01.2013 (FN)
7.	Ms. Parvathy Rahul	586	03.09.2012 (FN)

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors in the following media units until further orders :—

1.	Sh. Dheep Joy Mampilly	NSD : AIR, New Delhi
2.	Ms. Dhanya Sanal K.	DDN, New Delhi
3.	Shri Dileep Kumar Shukla	NSD : AIR, New Delhi
4.	Shri Bharath R.	NSD : AIR, New Delhi
5.	Ms. Mahima Vashisht	DDN, New Delhi
6.	Shri Akhlesh Kumar Sharma	EMMC, New Delhi
7.	Ms. Parvathy Rahul	DDN, New Delhi

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th January 2013

No. A-22011/4/2012-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Robin Adaval, ITS (1994) as Director in the Ministry of Urban Development in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000 and Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 14.01.2013 (FN) for a period of 5 years or until further orders whichever is earlier.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

The 21st January 2013

No. A-32013/1/2011-Admn. I (Pt.)—Consequent upon their nomination to the cadre of Ministry of Urban Development on promotion to the Grade of Under Secretary of CSS on ad hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012/CS.I(U) dated 06th December 2012, 12th December 2012 and 28th December 2012, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS cadre indicated against their names, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad hoc basis w.e.f. the date mentioned against their names :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Relieving Ministry	Date of appointment
1.	7616	R.D.S. Bhandari	PMO	14.12.2012 (FN)
2.	7701	Gajraj Singh	M/o Agriculture	21.12.2012 (FN)
3.	7736	Arun Banerjee	Archaeological Survey of India	28.12.2012 (FN)
4.	7841	Ajit Kumar	M/o Chemical & Fertilizers	27.12.2012 (FN)
5.	7878	I.M. Khan	M/o Labour & Employment	31.12.2012 (AN)
6.	7875	Jasbir Singh	Department of Commerce	01.01.2013 (FN)

2. Their appointment to the grade of Under Secretary on ad hoc basis shall be subject to the final outcome in the O.A. No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OM No. 1083/2007 and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of CSS.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

New Delhi, the 24th January 2013

No. A-22011/01/2009-Adm. I—The President is pleased to appoint Shri Ravi Mathur, IAS (RJ : 79) as Special Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from 11th January, 2013 to 13th January, 2013, on in-situ basis.

A. K. THAKUR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013